



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

7-5-81

सं० 126] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 1981/चैत्र 4, 1903
No. 126] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 1981/CHAITRA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1981

का० आ० 216(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 812, तारीख 8 मार्च, 1978 द्वारा, उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 385.00 एकड़ (लगभग) या 155.80 हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के मूलपूर्य इत्यादि, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 133, तारीख 27 दिसम्बर, 1979 द्वारा, तारीख 25 मार्च, 1980 से प्रारम्भ होने वाले एक वर्ष की और अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करने हुए, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर किसी अधिकार को अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी, सूचना दी थी ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्त है

अतः केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 385.00 एकड़ (लगभग) या 155.80 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

टिप्पण—1. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त, रांची (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, कार्मिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (राजस्थान अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण—2.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है —

“8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन दिए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थान्तरण यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन मंत्रियाण करना चाहता है और ऐसी सक्रियाण केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति मक्षम प्राधिकारी का लिखित रूप में की जाएगी और मक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता का व्यक्तिगत सुनवाई का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसा अनिवार्यतापूर्वक, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अतिरिक्त सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उनके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भी भीम में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने में तत्पर होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों में आपत्ति नियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।

टिप्पण — 3 केन्द्रीय सरकार ने, कायला नियंत्रक 1- कासिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को इस अधिनियम के अधीन मक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

हेन्डीगर एक्मटेन्शन ट्वाक

(उत्तरी कणपुर कोलफिल्ड)

राजस्/3/81

तारीख 16-1-81

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना सं०	थाना सं०	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणियाँ
1	हेन्डग	बर्मू	31	राची		भाग
2	छापर	बर्मू	33	राची		भाग
3	बिजा	बर्मू	34	राची		भाग
कुल क्षेत्रफल		385 00 एकड़ (लगभग)				
या		155 80 हेक्टर (लगभग)				

ग्राम हेन्डग में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याक —

15 (भाग), 20 (भाग), 21 से 24, 25 (भाग) 26 से 28, 152 (भाग), 153 (भाग), 154, 155 (भाग), 156 (भाग), 157 (भाग), 158, 159, 160 (भाग), 161, 162 (भाग), 171 (भाग), 172 (भाग), 173 से 178, 179 (भाग), 180 (भाग), 181 (भाग), 220 (भाग), 221 (भाग), 222 (भाग), 223 (भाग), 224 (भाग), 225 से 240 241 (भाग), 242, 243 (भाग), 244 (भाग), 246, 247, 248, 251, 259

ग्राम छापर में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याक —

483 (भाग), 484 (भाग), 485 (भाग), 486 (भाग), 487 से 493, 494 (भाग), 498 (भाग), 499 (भाग), 500, 501 (भाग), 502 (भाग), 503 (भाग), 504 505, 506 507 (भाग), 522 (भाग), 524 (भाग), 525 से 581, 582 (भाग), 583 से 598, 599 (भाग), 604 (भाग), 605 से 688 689 (भाग), 690, 691, 692 (भाग), 705 (भाग), 706 (भाग), 707 (भाग), 1248

ग्राम बिजा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याक —

1 (भाग), 2 (भाग), 39 (भाग), 40 (भाग)।

सामान्य धारा, —

क-ख रेखा ग्राम हेन्डग में प्लॉट सं० 15, 25, 20, 25, 153, 152, 155, 156, 157, 160, 162, 171, 172, 180, 179, 181, 224, 241, 223, 220 से होकर जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

ख-ग रेखा ग्राम हेन्डग में प्लॉट सं० 220, 221, 222, 244, 223, 244, 223, 243 से होकर, ग्राम बिजा में प्लॉट सं० 40, 39, 2 और 1 (नाला) से होकर और ग्राम छापर में प्लॉट सं० 707 (नाला), 706, 705, 689, 707 (नाला) से होकर जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग-घ रेखा ग्राम छापर में (जो हेन्डगिर कोयला खान की सामान्य सीमा बनाता है) प्लॉट सं० 707 (नाला) 689, 522, 692, 522, 524, 507, 498, 503, 502 501, 499, 494, 486, 485, 484, 483, 599 से होकर जाती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ-क रेखा ग्राम छापर में प्लॉट सं० 599 582, 604 से होकर और ग्राम हेन्डग में प्लॉट सं० 15 से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं० 19(7)/81, सी एल]

पी० के० लाहिरी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1981

S O 216(E)—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No S O 842 dated the 8th March, 1978, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal the lands measuring 385 00 acres (approximately) or 155 80 hectares (approximately) in the locality specified in the schedule appended to that notification,

And whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No S O 133 dated the 27th December, 1979, under sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government gave notice specifying a further period of one year commencing from the 25th March 1980, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands,

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands,

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 385 00 acres (approximately) or 155 80 hectares (approximately), described in the Schedule appended hereto;

Note 1 The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner Ranchi (Bihar) or in the Office of the Coal Controller 1 Council House Street Calcutta 1 or in the Office of the Central Coalfields Ltd., (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi, (Bihar)

Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows :—

'8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector and opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note 3 : The Coal Controller, I, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

Hindegir Extn. Block
North Karanpura Coalfield

Rev/3/81

Dated : 16-1-81.

(showing lands to be acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Hendag	Burmu	31	Ranchi		Part
2.	Chhapar	"	33	"		"
3.	Binja	"	34	"		"

Total area :—385.00 Acres (approximately)

or :—155.80 Hectares (Approximately)

Plot numbers to be acquired in village Hendag:—

15(Part), 20(Part), 21 to 24, 25(Part), 26 to 28, 152(Part) 153(Part), 154, 155(Part), 156(Part), 157(Part), 158, 159, 160 (Part), 161, 162(Part), 171(Part), 172(Part), 173 to 178, 179 (Part), 180(Part), 181(Part), 220(Part), 221(Part), 222(Part), 223(Part), 224(Part), 225 to 240, 241(Part), 242, 243(Part), 244(Part), 246, 247, 248, 251, 259.

Plot numbers to be acquired in village Chhapar:—

483(Part), 484(Part), 485(Part), 486(Part), 487 to 493, 494 (Part), 498(Part), 499(Part), 500, 501(Part), 502(Part), 503 (Part), 504, 505, 506, 507(Part), 522(Part), 524(Part), 525 to 581, 582(Part), 583 to 598, 599(Part), 604(Part), 605 to 688, 689(Part), 690, 691, 692(Part), 705(Part), 706(Part), 707(Part), 1248.

Plot numbers to be acquired in village Binja:—1(Part), 2 (Part), 39(Part), 40(Part).

Boundry Description :—

A-B line passes through plot numbers 15, 25, 20, 25, 153, 152, 155, 156, 157, 160, 162, 171, 172, 180, 179, 181, 224, 241, 223, 220, in village Hendag and meets at point 'B'.

B-C line passes through plot numbers 220, 221, 222, 244, 223, 244, 223, 243 in village Hendag through plot numbers 40, 39, 2, and 1 (Nala) in village Binja, through plot numbers 707(Nala), 706, 705, 689, 707(Nala), in village Chhapar and meets at point 'C'.

C-D line passes through plot numbers 707, (Nala), 689, 522, 692, 522, 524, 507, 498, 503, 501, 499, 494, 486, 485, 484, 483, 599 in village Chhapar (which forms common boundary of Hindegir Colliery) and meets at point 'D'.

D-A line passes through plot numbers 599, 582, 604, in village Chhapar, through plot number 15 in village Hendag and meets at starting point 'A'.

[No. 19(7)/81-CL]

P.K. LAHIRI, Jt. Secy.

